

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 87]

भोपाल, सोमवार दिनांक 18 जनवरी 2010—पौष 28, शक 1931

#### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2010

फा. क्र. 17(ई)-133-09-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम चुनाव 2010 सम्पन्न कराने के लिए जिला छतरपुर में दिनांक 18 जनवरी 2010 से दिनांक 28 जनवरी 2010 तक की अवधि के लिए संलग्न सूची में उल्लेखित अधिकारियों को त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम चुनाव 2010 का कार्य सम्पादित कराने के लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. जे. खान, सचिव.

#### जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश

#### सेक्टर मजिस्ट्रेटों की सूची

परिशिष्ट "अ"

क्रमांक (1)	सेक्टर थाना का नाम (2)	राजस्व अधिकारी/सेक्टर मजिस्ट्रेट का नाम व पद (3)	मतदान दिनांक व मतदान का चरण (4)	सेक्टर अंतर्गत आने वाला क्षेत्र (5)
1	बिजावर-1	श्री शाहिर खान, तहसीलदार, गौरिहार	प्रथम चरण 18-1-2010	कॉलम (2) में अंकित थाना क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त मतदान केन्द्र.
2	किशनगढ़-2	श्री आर. ए. प्रजापति, तहसीलदार, लौंडी	प्रथम चरण 18-1-2010	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	सटई-3	श्री रमेश कौल, नायब तहसीलदार, ललपुर	प्रथम चरण 18-1-2010	कॉलम (2) में अंकित थाना क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त मतदान केन्द्र.
4	शाहगढ़-4	श्री बृजकिशोर अग्रवाल, नायब तहसीलदार, चंदला	प्रथम चरण 18-1-2010	—''—
5	पिपट-5	श्री रामहेत साहू, नायब तहसीलदार, देवरा	प्रथम चरण 18-1-2010	—''—
6	बमनौरा-6	श्री संतराम दुबे, नायब तहसीलदार, भगवां	प्रथम चरण 18-1-2010	—''—
7	भगवा-7	श्री फेरन सिंह रूगर, तहसीलदार, घुवारा	प्रथम चरण 18-1-2010	—''—
8	बड़ामलहरा-8	श्री राजेश शुक्ला, तहसीलदार, नौगांव	प्रथम चरण 18-1-2010	—''—
9	गुलगांज-9	श्री जे. के. एस. गुर्जर, तहसीलदार, महाराजपुर	प्रथम चरण 18-1-2010	—''—
10	बकस्वाहा-10	श्री अशोक कुमार अवस्थी, नायब तहसीलदार, लुगासी	प्रथम चरण 18-1-2010	—''—
11	बाजना-11	श्री एन. एस. गजोरिया, नायब तहसीलदार, बक्सवाहा	प्रथम चरण 18-1-2010	—''—
12	बमीठा-12	श्री उत्तम चन्द्र मेहरा तहसीलदार, बिजावर	प्रथम चरण 18-1-2010	—''—
13	थाना कोतवाली छतरपुर-13	श्री टी. पी. श्रीवास्तव नायब तहसीलदार, बछौन	द्वितीय चरण 21-1-2010	—''—
14	थाना सिविल लाईन छतरपुर-14	श्री रमेश कौल, नायब तहसीलदार, ललपुर	द्वितीय चरण 21-1-2010	—''—
15	थाना ओरछा रोड छतरपुर-15	श्री अशोक कुमार अवस्थी, नायब तहसीलदार, लुगासी	द्वितीय चरण 21-1-2010	—''—
16	मातगुवां-16	श्री एच. एस. पटैरिया, नायब तहसीलदार, सरवाई	द्वितीय चरण 21-1-2010	—''—
17	ईशानगर-17	श्री फेरन सिंह रूगर, तहसीलदार, घुवारा	द्वितीय चरण 21-1-2010	—''—
18	खजुराहो-18	श्री जे. के. एस. गुर्जर, तहसीलदार, महाराजपुर	द्वितीय चरण 21-1-2010	—''—
19	बमीठा-19	श्री राकेश शुक्ला, नायब तहसीलदार, नौगांव	द्वितीय चरण 21-1-2010	—''—
20	राजनगर-20	श्री उत्तम चन्द्र मेहरा तहसीलदार, बिजावर	द्वितीय चरण 21-1-2010	—''—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21	नौगांव-21	श्री के. पी. माहेश्वरी, अनुविभागीय अधिकारी, नौगांव	तृतीय चरण 24-1-2010	कॉलम (2) में अंकित थाना क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त मतदान केन्द्र.
22	महाराजपुर-22	श्री जे. के. एस. गुर्जर, तहसीलदार, महाराजपुर	तृतीय चरण 24-1-2010	—''—
23	अलीपुरा-23	अशोक कुमार अवस्थी, नायब तहसीलदार, लुगासी	तृतीय चरण 24-1-2010	—''—
24	हरपालपुर-24	श्री संतराम दुबे, नायब तहसीलदार, भगवां	तृतीय चरण 24-1-2010	—''—
25	लौंडी-25	श्री विनोद सोनकिया, तहसीलदार, छतरपुर	तृतीय चरण 24-1-2010	—''—
26	चंदला-26	श्री रामनिवास त्रिपाठी तहसीलदार, बड़ामलहरा	तृतीय चरण 24-1-2010	—''—
27	जुझारनगर-27	श्री दिनेश शुक्ला, तहसीलदार, राजनगर	तृतीय चरण 24-1-2010	—''—
28	प्रकाश बम्होरी-28	श्री रामहेत साहू, नायब तहसीलदार, देवरा	तृतीय चरण 24-1-2010	—''—
29	सरवाई-29	श्री एच. एस. पटैरिया, नायब तहसीलदार, सरवाई	तृतीय चरण 24-1-2010	—''—
30	गौरिहार-30	श्री फेरन सिंह रूगर, तहसीलदार, घुवारा	तृतीय चरण 24-1-2010	—''—
31	बंशिया-31	श्री रमेश कौल, नायब तहसीलदार, ललपुर	तृतीय चरण 24-1-2010	—''—
32	हिनौता-32	श्री कोमल प्रसाद सनकत, नायब तहसीलदार, जुझारनगर	तृतीय चरण 24-1-2010	—''—
33	गोयरा-33	श्री एन. एस. गजोरिया, नायब तहसीलदार, बक्सवाहा	तृतीय चरण 24-1-2010	—''—

जोनल अधिकारियों की सूची

क्रमांक	जनपद पंचायत	जोन क्रमांक एवं नाम	जोनल अधिकारियों के नाम एवं पद	दूरभाष क्रमांक/ मोबाइल नम्बर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	बड़ामलहरा	1 विश्वां	श्री एम. एस. वर्मा, ए. ओ. पी., जिला पंचायत, छतरपुर.	9893831488
2	बड़ामलहरा	2 कुटौरा	श्री सी. एल. कुर्मी, सहायक यंत्री (मैकेनिकल), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ई एण्ड एम उपसंभाग, छतरपुर.	9425403481

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	बड़ामलहरा	3 रामटौरिया	श्री जे. पी. कीर, जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग, छतरपुर.	9425647041
4	बड़ामलहरा	4 बमनौराकला	श्री एन. के. पाठक, कार्यपालन यंत्री, म. प्र. गृ. नि. मण्डल, छत्रसाल नगर छतरपुर.	9425140955
5	बड़ामलहरा	5 पनवारी	श्री आलोक शर्मा, समन्वयक सहयोग दल बड़ामलहरा, डी. पी. आई. पी., छतरपुर.	9406904241
6	बड़ामलहरा	6 सरकना	श्री बी. एन. तिवारी, सहायक यंत्री, बड़ामलहरा कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी छतरपुर.	9893067524
7	बड़ामलहरा	7 भगवां	श्री डी. पी. तिवारी, सहायक यंत्री, बड़ामलहरा कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नौगांव.	9425635737
8	बड़ामलहरा	8 बरेठी	श्री गजेन्द्र लारिया, सहा. प्रबंधक, म. प्र. ग्रा. स. वि. प्राधिकरण इकाई-2, छतरपुर.	9407153350
9	बड़ामलहरा	9 बीरों	श्री ओ. पी. तिवारी, सहायक यंत्री, एन. आर. ई. जी. एस. जनपद पंचायत, बड़ामलहरा.	9753346910
10	बड़ामलहरा	10 देवरान	श्री बी. के. श्रीवास्तव, कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग, छतरपुर.	9424772016
11	बड़ामलहरा	11 बंधा	श्री एस. के. मिश्रा, अनुविभागीय अधिकारी, कार्या. उपसंचालक, कृषि, छतरपुर.	9406783304
12	बड़ामलहरा	12 महाराजगंज	श्री ए. एस. शिवहरे, परियोजना अधिकारी, ईशानगर कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, छतरपुर	9425141509
13	बड़ामलहरा	13 सेंधपा	श्री अजय सिंह, सी. ई. ओ., जनपद पंचायत बड़ामलहरा.	9425354214
14	बड़ामलहरा	14 सडवां	श्री एम. एल. अहिरवार, अनुविभागीय अधिकारी, बड़ामलहरा कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, छतरपुर.	9893402799
15	बड़ामलहरा	15 रानीताल	श्री रामदुलारे कौल, रेन्ज ऑफीसर, बड़ामलहरा कार्यालय डी. एफ. ओ., छतरपुर.	9424791094
16	बड़ामलहरा	रिजर्व	श्री आर. के. ठाकुर, वाणिज्यकर अधिकारी, नौगांव, जिला छतरपुर (म. प्र.).	
17	बड़ामलहरा	रिजर्व	श्री मनमोहन तिवारी, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, बड़ामलहरा, जिला छतरपुर (म. प्र.).	
18	बिजावर	1 अनगौर	श्री आर. एस. नायक, सहायक यंत्री, कार्यालय कार्यपालन यंत्री सर्वे एवं अनुसंधान संभाग, छतरपुर.	9425474607 9179101424

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19	बिजावर	2 गुलगंज	श्री बी. एल. प्रजापति, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, छतरपुर.	9425141901
20	बिजावर	3 मऊखेरा	श्री बी. सी. जैन, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, बिजावर.	93298084413
21	बिजावर	4 गुलाट	श्री एस. के. ताम्रकार, सहायक यंत्री, म. प्र. गृह निर्माण मण्डल, छत्रसाल नगर छतरपुर.	9753142467
22	बिजावर	5 रगोली	डॉ. सीताराम दुबे, पशु चिकित्सक, कार्यालय उप संचालक, पशुचिकित्सा सेवायें, छतरपुर.	9981587593
23	बिजावर	6 पिपट	डॉ. विमल कुमार तिवारी, प. चि. स. श. कार्यालय, उप संचालक, पशु चिकित्सा, छतरपुर.	9893364044
24	बिजावर	7 बिजावर	श्री जे. एल. गुप्ता, सहायक संचालक, कार्यालय उप संचालक, कृषि, छतरपुर.	9826279680
25	बिजावर	8 रायचौर	श्री करन्जूलाल अहिरवार, रेन्ज आफीसर, किशनगढ़ कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, छतरपुर.	9424791078
26	बिजावर	9 नदगांयवट्टन	श्री एस. डी. कौल, रेन्ज ऑफीसर उत्पादन, बिजावर कार्यालय वन मंडलाधिकारी, छतरपुर.	
27	बिजावर	10 मोतीगढ़	श्री के. सी. जैन, सहायक जिला आबकारी अधिकारी, छतरपुर.	9425141159
28	बिजावर	11 जैतपुर	श्री व्ही एस. सोलंकी, जिला आबकारी अधिकारी, छतरपुर.	9424584684
29	बिजावर	12 बड़ागांव	श्री आर. के. निरंजन, अनुविभागीय अधिकारी, वन कार्यालय, डी. एफ. ओ., छतरपुर.	9424791047
30	बिजावर	13 कुपी	श्री के. बी. गुप्ता, रेन्ज आफीसर, छतरपुर कार्यालय डी. एफ. ओ. छतरपुर.	9424791053
31	बिजावर	14 पलकोंहा	श्री एच. एस. त्रिपाठी, समन्वयक, सहयोग दल खजुराहो, कार्यालय, डी. पी. आई. पी., छतरपुर.	9406904225
32	बिजावर	15 किशनगढ़	श्री अनूप सिंह राजपूत, वनमण्डलाधिकारी, छतरपुर	9424791051
33	बिजावर	16 देवरा	श्री अरूण मिश्रा, समन्वयक, सहयोग दल देवरा, डी. पी. आई. पी., छतरपुर.	9406904237
34	बिजावर	रिजर्व	श्री डी. के. गुप्ता, डिपो मैनेजर, म. प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम, छतरपुर.	
35	बिजावर	रिजर्व	श्री एस. के. पाण्डेय, उपयंत्री, लोक निर्माण विभाग, बिजावर, जिला छतरपुर.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
36	बक्सवाहा	1 मडदेवरा	श्री वीरन्द्र प्रताप सिंह बुन्देला, अनुविभागीय अधिकारी, वन छतरपुर कार्यालय डी. एफ. ओ. छतरपुर.	9424791110
37	बक्सवाहा	2 बक्सवाहा	श्री आर. के. मण्डावी, सी. ई. ओ. जनपद पंचायत बक्सवाहा.	9425800366
38	बक्सवाहा	3 पडरिया	श्री पी. एन. पुरोहित, रेंज आफिसर बक्सवाहा कार्यालय डी. एफ. ओ., छतरपुर.	9424791083
39	बक्सवाहा	4 बाजना	श्री वाय. के. दनायक, एस. डी. ओ. वन बक्सवाहा कार्यालय, डी. एफ. ओ. छतरपुर	9424791082
40	बक्सवाहा	5 सुनवाहा	श्री मनोहर सिंह राजपूत, सहायक यंत्री, कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, नौगांव.	
41	बक्सवाहा	6 बम्हौरी	श्री के. एस. अरजरिया, डी. पी. सी. जिला शिक्षा केन्द्र, छतरपुर.	9425814280
42	बक्सवाहा	7 गुगवारा	श्री के. के. खरे, सहायक प्रबंधक म. प्र. ग्रा. सड़क विकास प्राधिकरण ईकाई-1, छतरपुर.	9425304533
43	बक्सवाहा	8 नैनागिरी	श्री ओ. पी. गौड़, सहायक प्रबंधक, कार्यालय महाप्रबंधक, ग्रा. स. वि. प्रा. ईकाई-1 छतरपुर.	9425783396
44	बक्सवाहा	रिजर्व	श्री शिवनारायण स्वर्णकार विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, बक्सवाहा	9424761014
45	बक्सवाहा	रिजर्व	श्री तुलाराम निगम, उपयंत्री जनपद पंचायत बक्सवाहा, जिला छतरपुर.	
46	छतरपुर	1 सुकवां	श्री शैलेन्द्र कुमार गुप्ता, उप प्रबंधक लघु वनोपज संघ कार्या. डी. एफ. ओ. छतरपुर.	9827007742
47	छतरपुर	2 महेबा	श्री जी. पी. पटेल, जिला शिक्षा अधिकारी, छतरपुर	945068883
48	छतरपुर	3 बनगांय	श्री श्याम प्रकाश चौरसिया, महाप्रबंधक, म. प्र. ग्रा. सड़क विकास प्राधिकरण ईकाई-2, छतरपुर.	9425138498
49	छतरपुर	4 दालौन	श्री संजीव श्रीवास्तव कार्यपालन यंत्री, बरियारपुर बांयी नहर उप संभाग नं. 2, छतरपुर.	9425159809
50	छतरपुर	5 कांटी	श्री एस. के. पटैरिया, सहायक यंत्री, एन. आर. ई. जी. एस. जनपद पंचायत, छतरपुर.	9425140799
51	छतरपुर	6 निवारी	श्री बी. बी. लोधी सहायक संचालक कार्यालय उप संचालक, कृषि छतरपुर.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
52	छतरपुर	7 बगौता	श्री एस. एल. श्रीवास्तव, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, छतरपुर.	9425464710
53	छतरपुर	8 बृजपुरा	श्री व्ही. के. रावत, कार्यपालन यंत्री, कार्यालय बरियारपुर बाईं नगर, संभाग क्र. 1, राजनगर.	9425474581
54	छतरपुर	9 पडरिया	श्री ए. के. अग्रवाल, सहा. प्रबंधक, म. प्र. ग्रा. सड़क विकास प्राधिकरण ईकाई-2, छतरपुर.	9425434995
55	छतरपुर	10 कैडी	श्री पी. एन. खरे, सी. ई. ओ. जनपद पंचायत, छतरपुर.	9630767895
56	छतरपुर	11 ईशानगर	श्री अजय सिंह चौहान, सहायक यंत्री, नगरपालिका परिषद, छतरपुर.	
57	छतरपुर	12 पनौठा	श्री एस. के. जैन, जिला रोजगार अधिकारी, जिला छतरपुर	925031753
58	छतरपुर	13 मातगुवां	श्री विवेक सक्सेना, कार्यपालन यंत्री, सर्वे एवं अनुसंधान संभाग, छतरपुर.	9425140650
59	छतरपुर	14 कुरी	श्री एम. एल. विश्वकर्मा, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, छतरपुर.	9425141223
60	छतरपुर	रिजर्व	श्री के. एस. खरे, उपयंत्री, जनपद पंचायत, छतरपुर	9424343040
61	छतरपुर	रिजर्व	श्री एस. के. पाण्डेय, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, छतरपुर	9407300047
62	राजनगर	1 डुमरा	श्री आर. के. गुप्ता, सहायक यंत्री, कुटनी बांध संभाग, खजुवा	
63	राजनगर	2 ललपुर	श्री आलोक कुमार खरे, सहायक यंत्री, कुटनीबांध संभाग, खजुवा	
64	राजनगर	3 डहरा	श्री ए. डी. कन्सौरिया, सहायक यंत्री, बरियारपुर बायीं नहर संभाग क्रमांक 1 राजनगर (बमीठा)	
65	राजनगर	4 विक्रमपुर	श्री आर. के. तिवारी, सहायक यंत्री, बरियारपुर बायीं नहर संभाग क्रमांक-1 राजनगर.	
66	राजनगर	5 खजुवा	श्री पी. पी. पाठक, अनुविभागीय अधिकारी, जल मौसम विज्ञान, छतरपुर.	9926421639
67	राजनगर	6 पहरापुरवा	श्री डी. सी. अग्रवाल, अनुविभागीय अधिकारी, कुटनीबांध उप संभाग क्रमांक-2, खजुवा.	
68	राजनगर	7 करी	श्री के. के. मिश्रा, अनुविभागीय अधिकारी, कुटनीबांध उप संभाग क्रमांक-4, खजुवा.	
69	राजनगर	8 बसारी	डॉ. एस. के. गुप्ता, (व्ही. ए. एस.) पशु चिकित्सालय, राजनगर	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
70	राजनगर	9 लखेरी	डॉ. एस. के. पटेल, पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी राजनगर.	
71	राजनगर	10 बांदनी	श्री आर. एल. खरे, उपयंत्री जल संसाधन अनुविभाग, खजुराहो	
72	राजनगर	11 झमटुली	श्री एच. एन. राठौर, उपयंत्री जल संसाधन अनुविभाग खजुराहो	
73	राजनगर	12 घुरा	श्री एच. पी. चतुर्वेदी, उपयंत्री जल संसाधन अनुविभाग खजुराहो	
74	राजनगर	13 रनगुवां	श्री डी. के. मिश्रा, उपयंत्री जल संसाधन अनुविभाग, खजुराहो	
75	राजनगर	14 टिकरी	श्री व्ही. के. तिवारी, उपयंत्री, जल संसाधन अनुविभाग खजुराहो	
76	राजनगर	15 धमना	श्री यू. सी. जैन, उपयंत्री वरियारपुर बांई नगर संभाग क्र.-1.	
77	राजनगर	16 भियांताल	श्री एम. के. सक्सेना, उपयंत्री जल संसाधन अनुविभाग खजुराहो	
78	राजनगर	रिजर्व	श्री बी. के. सिंह, सी. ई. ओ. राजनगर कार्यालय जिला पंचायत	
79	राजनगर	रिजर्व	श्री आर. के. त्रिपाठी, बी. ई. ओ., विकासखण्ड शिक्षा विभाग	
80	नौगांव	1 सरसेड	श्री आर. पी. खरे, सहायक यंत्री, कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन नौगांव.	9425143054
81	नौगांव	2 अलीपुरा	श्री जे. डी. अहिरवार, प्राचार्य पंचायत सचिव, प्रशिक्षण केन्द्र, नौगांव.	9425145289
82	नौगांव	3 चिरवारी	श्री पंकज जैन, सी. ई. ओ. जनपद पंचायत, नौगांव कार्यालय जिला पंचायत, छतरपुर.	9425638240
83	नौगांव	4 इमलिया	श्री एम. सी. चौरसिया, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन नौगांव कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, नौगांव.	
84	नौगांव	5 दौरिया	श्री आर. के. कोरी, महाप्रबंधक, म. प्र. ग्रा. स. वि. प्राधिकरण इकाई 2, छतरपुर.	9826377405
85	नौगांव	6 गर्दोली	श्री ए. के. चौहान, प्राचार्य, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र नौगांव.	9424355928
86	नौगांव	7 मऊसहानियां	श्री के. पी. लखेरा, सहा प्रबंधक, म. प्र. ग्रा. सड़क विकास प्राधिकरण इकाई-2, छतरपुर.	9424922624
87	नौगांव	8 मानपुरा	श्री आर. के. गौतम, प्राचार्य सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, नौगांव	
88	नौगांव	9 लुगासी	श्री बी. बी. सिंह चौहान, सहायक यंत्री, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, छतरपुर.	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
89	नौगांव	10 नुना	श्री आर. एस. सोलंकी उप संचालक ग्रामीण विकास कल्याण एवं कृषि विकास, छतरपुर.	9424535884
90	नौगांव	11 कुराहा	श्री आर. एन. चौबे, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, नौगांव.	9425364009
91	नौगांव	12 ऊजरा	श्री अनिल कुमार चौरसिया, सहायक यंत्री कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी बरियारपुर, उर्मिल परियोजना छतरपुर	9425143883
92	नौगांव	13 मनकारी	श्री सुखराम परस्ते, प्राचार्य, कृषि विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र नौगांव, जिला छतरपुर.	
93	नौगांव	14 ढिगपुरा	श्री आर. एस. ठाकुर, प्रभारी सहायक यंत्री, उपखण्ड नौगांव कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लो. स्वा. यां. छतरपुर.	
94	नौगांव	15 टटम	श्री आर. पी. गुप्ता, समन्वयक सहयोग दल नौगांव डी. पी. आई. पी., छतरपुर.	9406904228
95	नौगांव	रिजर्व	श्री आर. पी. खरे, संकाय सदस्य क्षेत्रीय ग्रामीण विकास, प्रशिक्षण केन्द्र, नौगांव.	
96	नौगांव	रिजर्व	श्री एम. पी. पाठक, संकाय सदस्य क्षेत्रीय ग्रामीण विकास, प्रशिक्षण केन्द्र, नौगांव.	
97	बारीगढ़	1 प्रकाशबम्हौरी	श्री ओ. पी. खरे, अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल, छतरपुर.	9425831616
98	बारीगढ़	2 बलरामपुर	श्री पी. एस. परिहार, परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास परियोजना लौंडी जिला छतरपुर.	9993888706
99	बारीगढ़	3 चितहरी	श्री जी. पी. सिंह, कार्यपालन यंत्री, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, कुटनी संभाग खजवा, राजनगर.	
100	बारीगढ़	4 गौरिहार	श्री जे. एस. बराच, उपवनमण्डलाधिकारी, छतरपुर कार्यालय डी. एफ. ओ. छतरपुर.	9424975411
101	बारीगढ़	5 पल्टा	श्री पी. एल. वर्मा, रेंज आफिसर लौंडी, कार्यालय डी. एफ. ओ. छतरपुर.	
102	बारीगढ़	6 पहरा	श्री सुरेश सिंह कुशवाह, सहायक संचालक, उद्यान छतरपुर	
103	बारीगढ़	7 ठकुरा	श्री डी. के. मधरिया, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, छतरपुर.	9977510057
104	बारीगढ़	8 गोयरा	श्री एन. के. परिहार, अधीक्षण यंत्री जल संसाधन बरियारपुर/उर्मिल परियोजना मण्डल छतरपुर.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
105	बारीगढ़	9 बसराही	श्री ओ. पी. साहू, सहायक यंत्री, एन. आर. ई. जी. एस. जनपद पंचायत, बारीगढ़.	
106	बारीगढ़	10 सरवाई	श्री उदय प्रताप सिंह जिला परियोजना प्रबंधक डी. पी. आई. पी., छतरपुर.	9425097905
107	बारीगढ़	11 गौहानी	डॉ. नरेन्द्र गुप्ता, समन्वयक मानीटरिंग वेल्युएशन डी. पी. आई. पी. छतरपुर.	
108	बारीगढ़	रिजर्व	श्री बी. के. गुप्ता, सी. ई. ओ. जनपद पंचायत, बारीगढ़.	9425144040
109	बारीगढ़	रिजर्व	डॉ. डी. पी. सोनी, कार्यालय, उप संचालक, पशु चिकि. सेवायें, छतरपुर.	
110	लौंडी	1 पठा	श्री आर. के. खरे, अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग, लौंडी.	9425166689
111	लौंडी	2 ज्योराहा	श्री आर. एन. शाक्यवार, अनुविभागीय अधिकारी कृषि लौंडी.	9826399216
112	लौंडी	3 बगमऊ	श्री श्रीराम रावत, अनुविभागीय अधिकारी, बरियारपुर वाई नहर उप संभाग, क्रमांक-1 लौंडी.	9826568961
113	लौंडी	4 बम्हौरीपुरवा	श्री आर. डी. अहिरवार, अनुविभागीय अधिकारी, बरियारपुर, बाई नहर उप संभाग, क्रमांक-3 लौंडी.	9425452632
114	लौंडी	5 मुडेरी उत्तरी	श्री ए. के. सक्सेना, अनुविभागीय अधिकारी, बरियारपुर, बाई नगर उप संभाग, क्रमांक-6 लौंडी	9981032052
115	लौंडी	6 देवरी	श्री एस. एस. ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी, लोक स्वा. यांत्रिकी, लौंडी.	9425304552
116	लौंडी	7 बछौन	श्री बी. के. त्रिपाठी, बी. आर. सी. लौंडी	9993935788
117	लौंडी	8 बंजारी	श्री एस. के. सोनी, सहायक यंत्री, रा. गा. रो. गा. यो. लौंडी.	9893744002
118	लौंडी	9 रावपुर	श्री पी. एल. पटेल, अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा लौंडी.	9993393175
119	लौंडी	रिजर्व	श्री के. के. ओझा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, लौंडी.	9425650551
120	लौंडी	रिजर्व	श्री माधव प्रसाद मिश्रा, मुख्य न. पा. अधि. नगर पंचायत, लौंडी	9893751401